

## हरी नाम नहीं तो जीना क्या

हरी नाम नहीं तो जीना क्या  
अमृत है हरी नाम जगत में,  
इसे छोड़ विषय रस पीना क्या

काल सदा अपने रस डोले,  
ना जाने कब सर चढ़ बोले।  
हर का नाम जपो निसवासर,  
अगले समय पर समय ही ना॥

भूषन से सब अंग सजावे,  
रसना पर हरी नाम ना लावे।  
देह पड़ी रह जावे यही पर,  
फिर कुंडल और नगीना क्या॥

तीरथ है हरी नाम तुम्हारा,  
फिर क्यों फिरता मारा मारा।  
अंत समय हरी नाम ना आवे,  
फिर काशी और मदीना क्या॥

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/619/title/hari-naam-nahi-to-jeena-kya>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |